

बीवाईपीएल गोल्डन पीकॉक ऑक्युपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी अवॉर्ड का विजेता घोषित

बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक ऑक्युपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी अवॉर्ड 2019 का विजेता घोषित किया गया है।



इस पुरस्कार को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक्सिलेंस का पर्याय माना जाता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में, जूरी के प्रख्यात सदस्यों के मार्गदर्शन में इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तीन स्तरों पर मूल्यांकन के बाद यह पुरस्कार दिया जाता है। बीवाईपीएल अब इंडस्ट्री की नामी कंपनियों आरआईएल, एलएंडटी, डायल, मारुति, एनटीपीसी, आईओसी, रिलायंस ग्रुप, आदि की श्रेणी में आ गई है।

यह अवॉर्ड बीवाईपीएल के उस विजन की पुष्टि करता है जिसमें ऑक्युपेशनल हेल्थ और सेफ्टी, हमेशा से एक्सिलेंस की इसकी यात्रा का केंद्र बिंदु रहा है और भविष्य में भी रहेगा।

कूल टिप: एसी के तापमान में हर डिग्री की बढ़ोतरी यानी करीब 6 प्रतिशत बिजली की बचत


क्या आप जानते हैं कि किसी कंपनी या घर में बिजली पर जिनता खर्चा होता है, उसका 30 से 50 प्रतिशत हिस्सा एसी पर होने वाला खर्च हो सकता है! ऐसे में, अगर आप अपने एसी का तापमान सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, तो आप 6 प्रतिशत बिजली की बचत कर सकते हैं। इसलिए, कम से कम खर्च पर अधिक से अधिक आराम पाने के लिए आप अपने एसी के थर्मोस्टेट को 24-25 डिग्री के बीच सेट करें।

पहले	अब	वर्षिक बचत रुपये में	वर्षिक बचत प्रतिशत में
18 डिग्री सेल्सियस	24 डिग्री सेल्सियस	4814	33
	25 डिग्री सेल्सियस	5616	38
	26 डिग्री सेल्सियस	6419	43

* स्रोत: ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी बीईई, अनुमान: 1.5 टन 5-स्टार रेटेड स्प्लिट एसी, 180 दिन तक, प्रतिदिन 10 घंटे चलने पर

मोबाइल ऐप, टोल फ्री और हेल्पलाइन नंबरों जैसे सुविधाजनक माध्यमों से बिजली गुल की शिकायत दर्ज कराएं

मोबाइल ऐप



हेल्पलाइन नंबर
011-399 99 808



19122 (टोल फ्री)



8745999808



एसएमएस: 5616108

महत्वाकांक्षी डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए बीवाईपीएल, टेरी, पैनासॉनिक व सीईईडब्ल्यू की साझेदारी



दुनिया की बड़ी डिस्कॉम्स डिमांड साइड मैनेजमेंट (डीएसएम) पर बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं, ताकि बिजली की मांग में कमी लाई जा सके और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। अपने डीएसएम पहल के तहत, बीवाईपीएल इंडस्ट्री लीडर्स जैसे टेरी, पैनासॉनिक इंडिया और काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) के साथ साझेदारी की है। इसके तहत तीन महत्वाकांक्षी पहल लॉन्च की गई— 1. बिहेवियरल एनर्जी सेविंग ऐप, 2. ग्रीन डिविजन कॉन्सेप्ट और 3. बैटरी स्टोरेज के साथ सोलर माइक्रो ग्रीड्स। हाल ही में एक वर्कशॉप में इनका अनावरण किया गया। इन पहल में बड़े पैमाने पर बिजली बचाने की क्षमता है। साथ ही इनसे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी लाने में मदद मिलेगी।

इस मौके पर डीआईआरसी चेयरमैन जस्टिस एसएस चौहान, टेरी के डायरेक्टर जनरल श्री अजय माथुर और बीवाईपीएल के सीईओ श्री पी.आर. कुमार ने लोगों को संबोधित किया।

बारिश के दौरान ऐसे रहें सुरक्षित

मॉनसून एक बार फिर दस्तक दे रहा है। उमंग और उल्लास के साथ-साथ मॉनसून अपने साथ कुछ समस्याएं भी लाता है और इस सीजन में वॉटर लॉगिंग के कारण बिजली से संबंधित दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन, कुछ सावधानियां बरतकर आप खुद को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रख सकते हैं और इस तरह, दुर्घटना-मुक्त मॉनसून को सुनिश्चित किया जा सकता है।



- बिजली के पोल, सब-स्टेशन, ट्रांसफॉर्मर, स्ट्रीट लाइट समेत बिजली के सभी उपकरणों से दूर रहें
- बच्चों को जागरूक करें कि वे बिजली उपकरणों/ इन्स्टलेशन के पास न खेलें, अगर इन चीजों को बेरिफेक्ट किया गया हो, तो भी
- घर के अंदर या कहीं भी, बिजली से चलने वाले सामान/उपकरणों को गीले हाथों से न छुएं
- अपने घर पर एक टेस्टर रखें। यदि कोई स्विच या आपके घर की दीवार गीली हो, तो इसे न छुएं। पहले टेस्टर से चेक कर लें कि कहीं उनमें करंट तो नहीं आ रहा है। जरूरत हो, तो अपने इलेक्ट्रिशियन को कॉल करें।

फीडबैक

अपने फीडबैक व सुझाव भेजें: कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: शक्ति किरण बिल्डिंग, कड़कड़डूमा, दिल्ली-110032, सीआईएन: CIN:U40109DL2001PLC111525 फोन: 11-399-97-111/399-99-273

ईमेल: bypl.feedback@relianceada.com, वेबसाइट: www.bsesdelhi.com